



6.2 Strategy Development and Deployment

6.2.3. Institution Implements e-governance in its areas of operations

SCREEN SHOTS OF USER INTERFACES



RANIDURGA VATI UNIVERSITY, JBP

Summary of NAAC Metric:6.2.3

NAAC METRIC–VI	Governance, Leadership and Management
Key Indicator:6.2	Strategy Development and Deployment
Metric:6.2.3	Institution Implements e-governance in its areas of operations
<p>6.2.3 :Institution Implements e-governance in its areas of operations</p> <p>6.2.3.1. e-governance is implemented covering the following areas of operations:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administration 2. Finance and Accounts 3. Student Admission and Support 4. Examinations Options: <p>A. All of the above B. Any 3 of the above C. Any 2 of the above D. Any 1 of the above E. None of the above</p> <p style="text-align: right;">(Opt any one)</p> <p>Response:A</p>	

The implementation of e-Governance in the following areas of operations is provided in the file named “**E-Governance System.pdf**” (Page no. 1 to ...), the segregation of different modules for the Metric 6.2.3 is provided below. The screenshot so fall the interfaces are also provided in this document.

1. Administration(Option1):

Page no. 3-15

2. Finance and Accounts(Option2):

Page no. 16-22

3. Student Admission and Support(Option3):

Page no. 23-32

4. Examinations(Option4):

Page no. 33-36

Metric-6.2.3

Administration(Option1)

Quick Links

The screenshot shows the website of Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur Madhya Pradesh. The browser address bar shows the URL rdunijbpin.org/1192/More-Special-Features. The navigation menu includes Home, University, Administration, Departments (UTD), Examination, Notifications, Students Zone, Facilities, and Useful Links. The main content area is titled "Special Features" and lists several items:

- Interview for the post of Asstt. Professor in Bio-Science on 17th 18th Aug.2023 **New**
- National Workshop on Library Automation **New**
- Paper setting and other proforma **New**
- Admission Status 2022-23 **New**
- Result Status 2021-22 **New**

On the right side, there is a "Quick Links" section with a list of the same items as above, each with a play button icon. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 14-09-2023 and the time as 13:21.

e-NOTIFICATION

The screenshot shows the website of Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur Madhya Pradesh. The browser address bar shows the URL rdunijbpin.org/1068/Home#. The navigation menu includes Home, University, Administration, Departments (UTD), Examination, Notifications, Students Zone, Facilities, and Useful Links. The main content area is titled "Welcome to Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur" and contains a paragraph about the university's history and achievements. Below the welcome message, there are several sections:

- Important News**: A list of news items including "Instructions for paper setting of NEP Exams", "Recruitment Notices", "Revised advt for various teaching positions", and "Annihilation Form and Advertisement of Guest Faculty in various".
- Useful Links**: A list of links including "NAAC Info Link", "IQAC", "Online Services", "Result Links", and "UTD-CBCS-Noti".
- Notifications**: A dropdown menu with the following items: Convocation, Exam and General Notices, Notices of Academy and General Sections, Recruitment Notice, Ph D Notifications, UTD Admission, Sports and Culture Notices, Election of Registered Graduate, SC ST Cell, Show Cause Format for UFM, Tender Notice, M.Phil and DET Entrance Notices.
- VC's Desk**: A section with a photo of a man and the text "We know that Universities are store-houses of universal knowledge in each and every field of human life, specially for us, when we." with a "Read More[+]" link.
- Quick Links**: A list of links including "Admission Status 2022-23", "Result Status 2021-22", and "Interview for the post of Asstt. Professor in Bio-".


The Windows taskbar at the bottom shows the date as 14-09-2023 and the time as 13:29.

CM HELPLINE

NAAC | Download file | iLovePDF | Login | Document from Dr Meen | Sign In Officer's Login

cmhelpline.mp.gov.in/MIS/Default.aspx

Gmail | YouTube | Maps | New Tab



CM HELPLINE

Username :

Password :

Captcha :

C D U U E
↻

Login

Windows Search | 26° | ENG IN | 16:22 13-09-2023

NAAC | Download file | iLovePDF | Login | Document from Dr Meen | CM Helpline

cmhelpline.mp.gov.in/MIS/dashboard.aspx

Gmail | YouTube | Maps | New Tab

सूझाव
सूचना
ऑफिसर ट्रेनिंग

Hindi English

सूझाव

CALL 181 - जन हेतु जन सेवा

- डैशबोर्ड
- सर्च
- दिव्यांगजन की शिकायत
- मर्ज-सुझाव
- तत्काल सहायता
- Notification
- शिकायतों का निराकरण
- सामान्य शिकायत की स्थिति
- संतुष्टि परीक्षण के लिये प्रेषित करें
- सिटीजन मोबाइल नंबर अपडेट करें
- रिपोर्ट

0 मान्य-अमान्य हेतु लंबित शिकायतें

0 निर्धारित समय सीमा से बाह्य हो चुकी शिकायतें *

3 वापस आई की गई शिकायतें

अलर्ट

क्रमांक	विवरण	डाउनलोड
1	not attend_jul-2023 (1) NEW	↓
2	परिशिष्ट 1-विभागवार ग्रेडिंग Jul, 2023 NEW	↓
3	परिशिष्ट 2-जिलेवार ग्रेडिंग Jul, 2023 NEW	↓
4	परिशिष्ट 3-जिला पंचायत ग्रेडिंग Jul, 2023 NEW	↓
5	परिशिष्ट 4-नगर निगम ग्रेडिंग Jul, 2023 NEW	↓

Close

Windows Search | 26° | ENG IN | 16:23 13-09-2023

NAAC | Download file | iLovePDF | Login | Document from Dr Meen | CM Helpline | CM Helpline

cmhelpline.mp.gov.in/MIS/dashboard.aspx

CALL 181 - जन हेतु जन सेतु

Dashboard

सर्व

दिव्यांगजन की शिकायत

मर्ज-सुझाव

तत्काल सहायता

Notification

शिकायतों का निराकरण

सामान्य शिकायत की स्थिति

संतुष्टि परीक्षण के लिये प्रेषित करें

सिटीजन मोबाइल नंबर अपडेट करें

रिपोर्ट

Wednesday, September 13, 2023 सुझाव सूचना ऑफिसर ट्रेनिंग मैन्युअल Enter Email Subscribe

Note : श्री. आर पी. कोरी

Change Dashboard सभी

78 शिकायत जिस पर कार्यवाही जारी है	12 शिकायत जो आंशिक रूप से बंद है	0 शिकायत को बंद कर दिया गया है	0 मान्य-अमान्य हेतु लंबित शिकायतें
एनालिटिक्स डैशबोर्ड लेवल १	2 आज समय सीमा से बाहर होने वाली शिकायतें *	12 आगामी तीन कार्यदिवासों में समय सीमा से बाहर होने वाली शिकायतें *	0 निर्धारित समय सीमा से बाहर हो चुकी शिकायतें *
उच्च लेवल पर लंबित शिकायतें	उच्च लेवल अधिकारी से अमान्य शिकायतें	Word Cloud	3 ← वापस जाएँ की गई शिकायत

Search 26° ENG IN 16:23 13-09-2023

NAAC | Download file | iLovePDF | Login | Document from Dr Meen | CM Helpline | CM Helpline

cmhelpline.mp.gov.in/MIS/allcompclose.aspx?compId=MjE4OTA4MDk%3d-JqSU5acaX5M%3d

CALL 181 - जन हेतु जन सेतु

Dashboard

सर्व

दिव्यांगजन की शिकायत

मर्ज-सुझाव

तत्काल सहायता

Notification

शिकायतों का निराकरण

सामान्य शिकायत की स्थिति

संतुष्टि परीक्षण के लिये प्रेषित करें

सिटीजन मोबाइल नंबर अपडेट करें

रिपोर्ट

Wednesday, September 13, 2023 सुझाव सूचना ऑफिसर ट्रेनिंग मैन्युअल Enter Email Subscribe

शिकायत पर की गयी कार्यवाही श्री. आर पी. कोरी

कार्यवाही

Add New Template

कार्य प्रगति पर है

Send To CPGRAM

प्रकार चुनें

स्पेशल क्लोज के लिए प्रस्तावित करें

Template चयन करें

आंशिक रूप से बंद

कार्यक्षेत्र से बाहर है

Note : हिंदी में निराकरण दर्ज करने के लिए Google Input Tool डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें |

शिकायत का विवरण OD L COMPLAINTS SUGGESTION open WIP PC Close Special Close Not Connected Close Merge

← वापस जाएँ

Search 26° ENG IN 16:26 13-09-2023

NAAC | Download file | iLovePDF | Login | Document from Dr Meen | CM Helpline

cmhelpline.mp.gov.in/MIS/complaintlist.aspx?type=1&sid=0

CALL 181 - जन हेतु जन सेतु

श्रीएम हेल्पलाइन | Wednesday, September 13, 2023 | सुझाव | सूचना | ऑफिसर रूनिंग मंत्रालय

Enter Email | Subscribe

शिकायत की सूची

Show 10 entries

शिकायत क्र.	दिनांक	मेप दिनांक	लबित दिवस	नाम	क्षेत्र / ज़िला	फोन न	विभाग	शिकायत का प्रारूप	लेवल	कार्यवाही
21890809	20-04-2023	12-09-2023	146	नीलेश	ब्लॉक - जबलपुर (न.नि.) ज़िला - जबलपुर	6263962060	रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर	रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर से सम्बन्धित (रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर)	L1	<input checked="" type="checkbox"/>
22628702	11-06-2023	12-09-2023	94	सतीश डुमार t	ब्लॉक - जबलपुर (न.नि.) ज़िला - जबलपुर	9074956151	रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर	रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर से सम्बन्धित (रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर)	L1	<input checked="" type="checkbox"/>

← वापस जाएँ

Windows | Search | 26° | ENG IN | 16:24 13-09-2023

NAAC | Download file | iLovePDF | Login | Document from Dr Meen | CM Helpline

cmhelpline.mp.gov.in/MIS/Officerdashboardcomplaintlist.aspx?id=1&sid=0

CALL 181 - जन हेतु जन सेतु

श्रीएम हेल्पलाइन | Wednesday, September 13, 2023 | सुझाव | सूचना | ऑफिसर रूनिंग मंत्रालय

Enter Email | Subscribe

शिकायत जिस पर कार्यवाही जारी है |

कुल शिकायतें → 78 →

क्रमांक	शिकायत का प्रारूप	शिकायत की संख्या	देखें
1	रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर से सम्बन्धित (रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर)	77	<input type="button" value="देखें"/>
2	विभाग / विभाग के अधिकारी / अनुक्रम्या पेंशन से सम्बन्धित (रानी दुर्गाबती विश्वविद्यालय जबलपुर)	1	<input type="button" value="देखें"/>

← वापस जाएँ

Windows | Search | 26° | ENG IN | 16:24 13-09-2023

cmhelpline.mp.gov.in/rptComp.aspx?CompId=MjMwMTIzOTg%3d-TII23r5wUjU%3d - Google Chrome

cmhelpline.mp.gov.in/rptComp.aspx?CompId=MjMwMTIzOTg%3d-TII23r5wUjU%3d

गया ह आवेदक द्वारा बताया जा रहा ह का आवेदक जा का कालेज का जावास मता का रासा नहा मला ह ाजसस समस्या हो रही है कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।

निराकरण आवेदक की जानकारी अशूरी है दूरभाष पर कई बार संपर्क किया गया किंतु आवेदक कॉल नहीं उठा रहा है।

शिकायत की स्थिति शिकायतकर्ता से सहाति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है

शिकायत की स्थिति

दिनांक	स्थिति
29 Aug 2023	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
28 Aug 2023	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
25 Aug 2023	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
23 Aug 2023	शिकायतकर्ता से सहाति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
23 Aug 2023	आवेदक की जानकारी अशूरी है दूरभाष पर कई बार संपर्क किया गया किंतु आवेदक कॉल नहीं उठा रहा है।
21 Aug 2023	प्रकरण निराकरण हेतु सहायक कुलसचिव ST/SC CELL भेजा गया कार्य प्रगति पर है।
18 Aug 2023	शिकायत निराकरण हेतु (एल-1) अधिकारी है नाम :-श्री आर पी कोरी , पद-प्रभारी सहायक कुलसचिव , फोन-9479441110
18 Aug 2023	शिकायत को संबधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है।
18 Aug 2023	शिकायत चयनित अधिकारी के कार्य क्षेत्र से संबधित नहीं है अतः पुनः उचित अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा
18 Aug 2023	एपीएन महा की छात्रवृत्ति हेतु नोडल संस्था शासकीय विज्ञान महाविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवास सहायता आवेदन हेतु संस्था की आईडी पर प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता के आवास आवेदन पर वार्निंग दिस प्रपोजल हस बीन एसाईड दो फेकल्टी ऑफ लॉ आर डी वी प्रदर्शित हो रहा है आधा शिकायत संबंध नोडल संस्था को हस्तांतरित करना चाहें
31 Jul 2023	शिकायत निराकरण हेतु (एल-1) अधिकारी है नाम :- डॉ नंदिता सरकार , पद-पाचार्य , फोन 9893087424

Enter Email

WhatsApp

Search:

फोन न	विभाग	शिकायत का प्रारूप	लेवल	कार्यवाही
57932274	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से सम्बन्धित (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर)	L1	
87103704	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से सम्बन्धित (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर)	L1	

← वापस जाएँ

ENG IN 16:28 13-09-2023

Counter Base Application

HOME

LOGIN: KIOSK | G2G



RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

MPonline Limited
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and IIS
मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

Counter Base Application

Apply for Degree (For only UG/PG Students)	As per Notif.	As per Notif.	-	<input type="button" value="APPLY"/>	HO
Apply for Duplicate Marksheet	As per Notif.	As per Notif.	-	<input type="button" value="APPLY"/>	SE
Apply for Migration Certificate	As per Notif.	As per Notif.	-	<input type="button" value="APPLY"/>	INS
Apply for Provisional Degree	As per Notif.	As per Notif.	-	<input type="button" value="APPLY"/>	CO
Pay-Unpaid/View Receipt (Counter Base App)	As per Notif.	As per Notif.	-	<input type="button" value="APPLY"/>	



RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA

Application for Degree/Diploma

उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं (*)

आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें।

महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

PERSONAL INFORMATION

छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार *	<input type="text"/>	छात्र का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>
पिता/पति का नाम(Father/Husband Name) *	<input type="text"/>	पिता/पति का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
माता का नाम (Mother Name)*	<input type="text"/>	माता का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
जन्मतिथि (Date of Birth) * (DATE FORMAT: DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>	मोबाइल नंबर (Mobile No) *	<input type="text"/>
श्रेणी (Category) *	--Select--	लिंग (Gender) *	Select
वर्तमान पता जहाँ उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं *	<input type="text"/>		
पिनकोड (Pincode)*	<input type="text"/>	ईमेल (Email Id) *	<input type="text"/>

COLLEGE DETAILS

महाविद्यालय का नाम(College Name)*	--Select--	पाठ्यक्रम का नाम(Course Name)*	Select	Division*	Select
परीक्षा का नाम(Exam Name) जो उत्तीर्ण की *	<input type="text"/>	परीक्षा का वर्ष(Exams Year) *	--select--	अनुक्रमांक (Roll Number)*	<input type="text"/>
नियमित अथवा स्वाध्यायी(Regular/Private) *	Select	परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) Exam Result(Pass/Fail)*	Pass	उपाधि प्रकार(Please Select Degree Type) *	--Select Degree Type--

यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम

सूचना:- छात्र जिन पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं उसकी अंतिम वर्ष की अंकसूची की फोटो प्रति, चिकित्सा छात्रों को इंटरशिप की फोटो प्रति एवं पीएचडी के छात्रों को नोटिफिकेशन की फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है।

Please Tick IF Any Attachments Provided By You(यदि आपके द्वारा कोई दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं तो चिह्नित करें।)

ALL MARKSHEET

यदि आप चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) के छात्र हैं एवं Internship कर चुके हैं तो अपना Internship प्रमाण पत्र संलग्न करें प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

Please Attach Scan copy of All Marksheet in 1 file (pdf format and size < 200 KB) No file chosen

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की हानि का समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

नोट: जिन छात्रों ने परीक्षा वर्ष 2005 या उसके बाद के वर्षों की डिग्री के लिए आवेदन दिया है, उन्हें केवल प्रेषण शुल्क लगेगा।

ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा सीधे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। अतः छात्र स्वयं फॉर्म भरें एवं शुल्क का भुगतान करें। किसी अन्य व्यक्ति या इंटरनेट कैफे से किये गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह ऑनलाइन फॉर्म Valid तब होता है जब इसका ऑनलाइन भुगतान (Payment Done) किया गया हो, जिसमें कि Application number, QRcode, Transaction Id, Payment date, Channel Id आदि का विवरण स्पष्ट रूप से हो अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाता है।

bZ8b5T

Type the text

Submit



RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA

Application for Duplicate Marksheet

अनुलिपि अंकसूची प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सभी फील्ड अनिवार्य हैं (*)

आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें।

महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें या ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

PERSONAL INFORMATION

छात्र का नाम (English) मार्कशीट के अनुसार *	<input type="text"/>	छात्र का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>
<small>कृपया छात्र का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।</small>	
पिता/पति का नाम (Father/Husband Name) *	<input type="text"/>	पिता/पति का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>
<small>कृपया पिता/पति का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>पिता/पति का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।</small>	
माता का नाम (Mother Name) *	<input type="text"/>	माता का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>
<small>कृपया माता का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।</small>	
जन्मतिथि (Date of Birth) * (DATE FORMAT DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>	मोबाइल नंबर (Mobile No) *	<input type="text"/>
<small>कृपया जन्मतिथि मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>आवेदक अपना ही मोबाइल नंबर लिखें।</small>	
श्रेणी (Category) *	<input type="text"/>	लिंग (Gender) *	<input type="text"/>
<small>--Select--</small>		<small>Select</small>	
वर्तमान पता जहाँ अनुलिपि अंकसूची प्राप्त करना चाहते हैं *	<input type="text"/>		
पिनकोड (Pincode) *	<input type="text"/>	ईमेल (Email Id) *	<input type="text"/>
		<small>आवेदक अपना ही ईमेल लिखें।</small>	

COLLEGE DETAILS

महाविद्यालय का नाम (College Name) *	<input type="text"/>	<small>--Select--</small>	<small>कृपया अपने कॉलेज का चयन करें।</small>
पाठ्यक्रम का नाम (Course Name) *	<input type="text"/>	Division *	<input type="text"/>
<small>कृपया अपने कोर्स का चयन करें।</small>		<small>Select</small>	
परीक्षा का नाम (Exam Name) जिसकी Duplicate Marksheet चाहिए *	<input type="text"/>	परीक्षा का वर्ष (Exams Year) जिसकी Duplicate Marksheet चाहिए *	<input type="text"/>
<small>कृपया परीक्षा का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>--select--</small>	<small>कृपया अपने अंतिम परीक्षा वर्ष का चयन मार्कशीट के अनुसार करें।</small>
अनुक्रमांक (Roll Number) *	<input type="text"/>	नामांकन/पंजीयन क्रमांक (Enrolment Number) *	<input type="text"/>
<small>कृपया अनुक्रमांक मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>कृपया नामांकन/पंजीयन क्रमांक मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>	
नियमित अथवा स्वाध्यायी (Regular/Private) *	<input type="text"/>	परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) Exam Result (Pass/Fail) *	<input type="text"/>
<small>Select</small>	<small>कृपया चयन करें कि आप नियमित हैं या स्वाध्यायी।</small>	<small>Select</small>	<small>कृपया अपने परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) का चयन मार्कशीट के अनुसार करें।</small>

यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम

सूचना- छात्र जिस पाठ्यक्रम की अनुलिपि अंकसूची प्राप्त करना चाहते हैं उसकी अंतिम वर्ष की अंकसूची की फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है।

Please Tick IF Any Attachments Provided By You (यदि आपके द्वारा कोई दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं तो चिह्नित करें।)

AFFIDAVIT/ FIR

MARKSHEET जिसकी Duplicate Marksheet चाहिए

LAST EXAM PASSED MARKSHEET

Please Attach Scan copy of All Marksheet in 1 file (.pdf format and size < 200 KB) No file chosen

Please Attach Scan copy of affidavit/FIR in (.jpg/.gif format and size < 300 KB) No file chosen

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मैंने द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की हानि का समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

नोट: जिन छात्रों ने परीक्षा वर्ष 2005 या उसके बाद के वर्षों की डिग्री के लिए आवेदन दिया है, उन्हें केवल प्रेषण शुल्क लगेगा।

ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा सीधे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। अतः छात्र स्वयं फॉर्म भरें एवं शुल्क का भुगतान करें। किसी अन्य व्यक्ति या इंटरनेट कैफे से किये गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह ऑनलाइन फॉर्म Valid तब होता है जब इसका ऑनलाइन भुगतान (Payment Done) किया गया हो, जिसमें कि Application number, QRcode, Transaction Id, Payment date, Channel Id आदि का विवरण स्पष्ट रूप से हो अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाता है।

qKGQB5

Type the text

Submit



RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA

Application for Migration Certificate

प्रयोजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं (*)

आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें।

महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

PERSONAL INFORMATION

छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार *	<input type="text"/>	छात्र का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>
पिता/पति का नाम(Father/Husband Name) *	<input type="text"/>	पिता/पति का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
माता का नाम (Mother Name)*	<input type="text"/>	माता का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
जन्मतिथि (Date of Birth) * (DATE FORMAT DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>	मोबाइल नंबर (Mobile No) *	<input type="text"/>
श्रेणी (Category) *	--Select--	लिंग (Gender) *	Select
वर्तमान पता जहां प्रयोजन प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं *	<input type="text"/>		
पिनकोड (Pincode) *	<input type="text"/>	ईमेल (Email Id) *	<input type="text"/>

COLLEGE DETAILS

महाविद्यालय का नाम(College Name)*	--Select--	परीक्षा का नाम(Exam Name) जो उत्तीर्ण की *	--select--
पाठ्यक्रम का नाम(Course Name)*	Select	परीक्षा का वर्ष(Exam's Year) *	--select--
अनुक्रमिक (Roll Number)*	<input type="text"/>	नामांकन/पंजीयन क्रमांक (Enrollment Number)*	<input type="text"/>
नियमित अथवा स्वायत्त(Regular/Private) *	Select	परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) Exam Result(Pass/Fail)*	Select

यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम

सूचना - मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस वर्ष विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा / रही हूँ और न मैं इस विश्वविद्यालय की पिछली किसी परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण दोषी पाया गया/गयी हूँ।

1. ऑनलाइन छात्रों के लिए SIS रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

2. चिन छत्रों ने अभी तक SIS में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वह रजिस्ट्रेशन कर ले क्योंकि मार्केटिंग सर्विकेटर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप SIS लॉगिन से ही मार्केटिंग सर्विकेटर डाउनलोड कर पायेंगे।

3. 2014 के पूर्व छात्र लिंक के प्रवेश ऑनलाइन वे ग्ये छात्र मार्केटिंग सर्विकेटर ऑनलाइन विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

Please Tick IF Any Attachments Provided By You(यदि आपके द्वारा कोई दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं तो चिह्नित करें)

AFFIDAVIT/ FIR

ALL MARKSHEET

LAST EXAM PASSED MARKSHEET

यदि आप चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) के छात्र हैं एवं Internship कर चुके हैं तो अपना Internship प्रमाण पत्र संलग्न करें प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

Please Attach Scan copy of All Marksheets in 1 file (pdf format and size < 200 KB) No file chosen

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की हानि का दायरता उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

नोट: निम्न छात्रों में परीक्षा वर्ष 2005 या उसके बाद के वर्षों की डिग्री के लिए आवेदन दिया है, उन्हें केवल प्रेषण शुल्क लगेगा।

ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा तीथे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। अतः छात्र स्वयं फॉर्म भरे एवं शुल्क का भुगतान करें। किसी अन्य व्यक्ति या इंटरनेट कैफे से किये गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह ऑनलाइन फॉर्म Valid तब होता है जब इसका ऑनलाइन भुगतान (Payment Done) किया गया हो, जिसमें कि Application number, QRcode, Transaction Id, Payment date, Channel Id आदि का विवरण स्पष्ट रूप से हो अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाता है।



RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA

Application for Provisional Certificate

प्रावधिक उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सभी फील्ड अनिवार्य हैं (*)

आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र DIVISION में केवल PASS का चयन करें।

महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

PERSONAL INFORMATION

छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार *	<input type="text"/>	छात्र का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>
पिता/पति का नाम(Father/Husband Name) *	<input type="text"/>	पिता/पति का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
माता का नाम (Mother Name):	<input type="text"/>	माता का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
जन्मतिथि (Date of Birth) * (DATE FORMAT DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>	मोबाइल नंबर (Mobile No) *	<input type="text"/>
श्रेणी (Category) *	--Select--	लिंग (Gender) *	Select
वर्तमान पता जहां प्रावधिक उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं*	<input type="text"/>		
पिनकोड (Pincode)*	<input type="text"/>	ईमेल (Email Id) *	<input type="text"/>

COLLEGE DETAILS

महाविद्यालय का नाम(College Name)*	--Select--	पाठ्यक्रम का नाम(Course Name)*	Select	Division*	Select
परीक्षा का नाम(Exam Name) जो उत्तीर्ण की *	<input type="text"/>	परीक्षा का वर्ष(Exam's Year) *	--select--	अनुक्रमांक (Roll Number)*	<input type="text"/>
नियमित अथवा स्वाध्यायी(Regular/Private) *	Select	परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) Exam Result(Pass/Fail)*	Pass	नामांकन/पंजीयन क्रमांक (Enrollment Number)*	<input type="text"/>

यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम

सूचना: छात्र जिस पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं उसकी अंतिम वर्ष की अंकसूची की फोटो प्रति, चिकित्सा छात्रों को इन्टरनेटिंग की फोटो प्रति एवं पीएचडी के छात्रों को नेटिफिकेशन की फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है।

Please Tick IF Any Attachments Provided By You(यदि आपके द्वारा कोई दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं तो चिह्नित करें।)

ALL MARKSHEET

यदि आप चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) के छात्र हैं एवं internship कर चुके हैं तो अपना internship प्रमाण पत्र संलग्न करें,प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

Please Attach Scan copy of All Marksheet in 1 file (.pdf format and size < 200 KB) No file chosen

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं किसी भी प्रकार की हानि का समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

नोट: जिन छात्रों ने परीक्षा वर्ष 2005 या उसके बाद के वर्षों की डिग्री के लिए आवेदन दिया है, उन्हें केवल प्रेषण शुल्क लगेगा।

ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा सीधे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। अतः छात्र दसवें फॉर्म भरें एवं शुल्क का भुगतान करें। किसी अल्प व्ययित्ति या इंटरनेट कैंफे से किये गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह ऑनलाइन फॉर्म Valid तब होता है जब इसका ऑनलाइन भुगतान (Payment Done) किया गया हो, जिसमें कि Application number, QRcode, Transaction Id, Payment date, Channel Id आदि का तितरण स्पष्ट रूप से हो अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाता है।

mtjKsv

Type the text

Submit



RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA

Application for Provisional Certificate

प्रावधिक उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सभी फील्ड अनिवार्य हैं (*)

आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

चिकित्सा तंत्रिका (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें।

महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

PERSONAL INFORMATION

छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार *	<input type="text"/>	छात्र का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>
<small>कृपया छात्र का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।</small>	
पिता/पति का नाम(Father/Husband Name) *	<input type="text"/>	पिता/पति का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
<small>कृपया पिता/पति का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>पिता/पति का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।</small>	
माता का नाम (Mother Name)*	<input type="text"/>	माता का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>
<small>कृपया माता का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।</small>	
जन्मतिथि (Date of Birth) * <small>(DATE FORMAT DD/MM/YYYY)</small>	<input type="text"/>	मोबाइल नंबर (Mobile No) *	<input type="text"/>
<small>कृपया जन्मतिथि मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>आवेदक अपना ही मोबाइल नंबर लिखें।</small>	
श्रेणी (Category) *	--Select--	लिंग (Gender) *	Select
वर्तमान पता जहां प्रावधिक उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं*	<input type="text"/>		
पिनकोड (Pincode)*	<input type="text"/>	ईमेल (Email Id) *	<input type="text"/>
		<small>आवेदक अपना ही ईमेल लिखें।</small>	

COLLEGE DETAILS

महाविद्यालय का नाम(College Name)*	--Select--	<small>कृपया अपने कॉलेज का चयन करें।</small>
पाठ्यक्रम का नाम(Course Name)*	Select	<small>कृपया अपने कोर्स का चयन करें।</small>
परीक्षा का नाम(Exam Name) जो उत्तीर्ण की *	<input type="text"/>	परीक्षा का वर्ष(Exam's Year) *
<small>कृपया परीक्षा का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>कृपया अपने अंतिम परीक्षा वर्ष का चयन मार्कशीट के अनुसार करें।</small>
अनुक्रमांक (Roll Number)*	<input type="text"/>	नामांकन/पंजीयन क्रमांक (Enrollment Number)*
<small>कृपया अनुक्रमांक मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>		<small>कृपया नामांकन/पंजीयन क्रमांक मार्कशीट के अनुसार लिखें।</small>
नियमित अथवा स्वास्थ्यायी(Regular/Private) *	Select	परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) Exam Result(Pass/Fail)*
<small>कृपया चयन करें कि आप नियमित हैं या स्वास्थ्यायी।</small>		<small>कृपया अपने परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)का चयन मार्कशीट के अनुसार करें।</small>

यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम

सूचना: छात्र निम्न पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं उसकी अंतिम वर्ष की अंकसूची की फोटो प्रति, चिकित्सा छात्रों को इन्टरनशिप की फोटो प्रति एवं पीएचडी के छात्रों को नोटिफिकेशन की फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है।

Please Tick IF Any Attachments Provided By You(यदि आपके द्वारा कोई दस्तावेज सलगन किये जा रहे हैं तो चिह्नित करें।)

All MARKSHEET

यदि आप चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) के छात्र हैं एवं internship कर चुके हैं तो अपना internship प्रमाण पत्र सलगन करें,प्रमाण पत्र सलगन करना अनिवार्य है।

Please Attach Scan copy of All Marksheets in 1 file (pdf format and size < 200 KB) No file chosen

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावे एवं किसी भी प्रकार की हानि का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

नोट: जिन छात्रों ने परीक्षा वर्ष 2005 या उसके बाद के वर्षों की डिग्री के लिए आवेदन दिया है, उन्हें केवल प्रेषण शुल्क लगेगा।

ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा सीधे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। अतः छात्र स्वयं फॉर्म भरें एवं शुल्क का भुगतान करें। किसी अन्य व्यक्ति या इंटरनेट कैफे से किये गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह ऑनलाइन फॉर्म Valid तब होता है जब इसका ऑनलाइन भुगतान (Payment Done) किया गया हो, जिसमें कि Application number, QRcode, Transaction Id, Payment date, Channel Id आदि का विवरण स्पष्ट रूप से हो अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाता है।

VGgXz7

Type the text



Submit



rdvv.mponline.gov.in/P



15



HOME

LOGIN: KIOSK | G2G



RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA

Pay-Unpaid Application/View Receipt

Application No.*	<input type="text"/>	Date Of Birth*	<input type="text"/>	<input type="button" value="Search"/>
		(DATE FORMAT: DD/MM/YYYY)		
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"><p>Dqv4z8</p><input type="text" value="Type the text"/> <input type="button" value="↻"/></div>		

HOME

LOGIN: KIOSK | G2G



RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA

Search Admission Details

Fields are mandatory(*)	
Enter RollNo :*	<input type="text"/>
Enter Mothers First Name :*	<input type="text"/>
Select Semester :*	--Select--
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"><p>6MdpDg</p><input type="text" value="Type the text"/> <input type="button" value="↻"/></div>
Note: For Old Candidate Enter your Roll No. and Mother's Name according to your last Year Marksheet.	
<input type="button" value="Search Details"/>	

Online Student Grievance Redressal portal

The screenshot shows the homepage of Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur. The navigation menu includes Home, University, Administration, Departments (UTD), Examination, Notifications, Students Zone, Facilities, and Useful Links. A dropdown menu for 'Students Zone' is open, listing options like Syllabus Links, E Contents and Resources, Scholarship, Anti Ragging Committee etc, Feedback Form Submission, Download Form, UTD Hostel Admission Form, and Hostel Admission Rules. The main content area features a 'Welcome to Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur' message and a 'VC's Desk' section with a video player. There are also sections for 'Important News', 'Useful Links', and 'Quick Links'.

Madhya Pradesh Higher Education


The screenshot shows the homepage of the Madhya Pradesh Higher Education website. The header includes a search bar, navigation links for 'मुख्य सामग्री की ओर', 'स्क्रीन रीडर्स का उपयोग', 'English', and 'सीएमएस लॉगिन'. The main content area features the logo of the 'उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन' and a list of links for 'मुख्य पृष्ठ', 'हमारे बारे में', 'करियर मार्गदर्शन', 'योजना', 'विश्वविद्यालय', 'महाविद्यालय / संस्थान', 'डाउनलोड', 'विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान', and 'एकीकृत पोर्टल'. A central banner displays four statistics: 14,85,457 छात्र, 299 प्रचलित कोर्से, 1360 महाविद्यालय, and 56 विश्वविद्यालय. Below the banner, there are sections for 'नवीन निर्देश', 'हमारे मार्गदर्शक', and a list of news items with dates and view counts.


University Grant Commission

← → ↻ ugc.gov.in


Gmail YouTube Maps New Tab

⏏ ⏴ ⏵ 🔊 Text Size: A⁻ A A⁺ English Contact Us FAQs e-Procurement Tenders Jobs Q


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
 Quality higher education for all




[Home](#)
[About Us](#)
[Organization](#)
[Key Initiatives](#)
[Guidelines](#)
[Regulations](#)
[HEI's](#)
[Fake Universities](#)
[e-Publications](#)





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये



UGC

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Quality higher education for all

New Delhi, INDIA

Windows Taskbar: Search, 25°, ENG IN, 13-09-2023

Gmail YouTube Maps New Tab

⏏ ⏴ ⏵ 🔊 Text Size: A⁻ A A⁺ English Contact Us FAQs e-Procurement Tenders Jobs Q


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
 Quality higher education for all




[Home](#)
[About Us](#)
[Organization](#)
[Key Initiatives](#)
[Guidelines](#)
[Regulations](#)
[HEI's](#)
[Fake Universities](#)
[e-Publications](#)

Commission

- Commission Members
- Commission Decisions

Administration

- Chairman
- Vice Chairman
- Secretary
- Financial Advisor
- Additional Secretaries

- Joint Secretaries
- Deputy Secretaries
- Education Officers
- Under Secretaries

→ UGC Bureaus
 → UGC Offices

Education Policy

Commission

THRUST AREAS

- Knowledge System
- Equitable and Inclusive Education
- Research, Innovation and Entrepreneurship







Metric-6.2.3

Finance and Accounts (Option2)

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)
(Formerly University of Jabalpur)

6.2.3
ERP

All Communications should be addressed to "The Registrar" and not to any officer by name. The No. and date of previous correspondence on the subject, if any, should invariably be given otherwise it will be difficult to take any action.





From :
Registrar
Rani Durgavati Vishwavidyalaya,
Jabalpur


FAX: 0761-2603752
Tele. : Office : 2600785
Resi. : 9425151905
EPABEX : 2600567, 8, 9


प्रमाणीकरण


प्रमाणित किया जाता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में लेखा संबंधी कार्य Tally Software के द्वारा किया जाता है, इसके लिए कोई Online link नहीं है।



वित्ति नियंत्रक
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर (म. प्र.)



कुलसचिव
कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर















Metric-6.2.3

Student Admission and Support (Option3)

Home icon | rdvv.mponline.gov.in/p | + | 15 | ⋮

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

 **RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA**
Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGA VATI

Available Services

SERVICES NAME	START DATE	END DATE	DOWNLOAD	AC
University Teaching Dept (UTD) 2023-24				
Apply for UTD Admission Form through Merit/Entrance	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Pay-Unpaid/View Receipt UTD	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Private Exam Form 2023				
Apply for Private Exam Form UG/PG	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Pay-Unpaid/View Receipt Exam UG/PG	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Private Enroll 2023 (PG)				
Apply for Private Enrollment Form (1YEAR Fresh Student	As per	As per	-	APPLY

HO
SE
INS
CO



RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA

UTD Admission Form 2023-24

Fields Marked with(*) are mandatory

Dept. Details

School of Studies/ Department* -- Select --

Course Details

Application For* -- Select -- Subject* -- Select --

Candidate's Personal Details [As per 10+2 Marksheet]

First Name* Last Name*

Full Name in Hindi* *नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंग्रेजी में एब्य टाइप करे फिर स्पेल स्टन दबावे

DOB (dd/mm/yyyy)* Gender* --SELECT--

Father's Name* Mother's Name*

Marital Status* --SELECT-- Husband's Name

Category* --SELECT--

Sub-Category *

Freedom Fighter
 Physically Handicap (Nishkalan)
 MP Domicile
 University Employee ward
 ...

Registered Unorganized Workman(कर्मचारी, असंगठित कर्मचारी)

Nationality* --SELECT-- Religion* --SELECT--

Permanent Address

House No/Village * Colony/Post *

City/Tehsil* District *

State* -- Select -- Pincode *

Contact Details

Phone No (With STD Code) Mobile No.* Email id*

Educational Qualifications Details

Exam Passed	University/Board	Year of Passing	Subject /Branch	Result Awaited	Div.(ex. 1/2/3)	Per(%. (ex.00.00)	Marksheet Cert. No.
Higher Secondary *	<input type="text"/>	--Select--	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Graduation	<input type="text"/>	--Select--	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PG/Other Qualification	<input type="text"/>	--Select--	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Place of residence in Jabalpur

House no. Area

Checklist for Enclosures (To be photocopies of the enclosures along with this form should be submitted in the department for verification before last date of application.) (Please Tick the Box) *

10+2 marksheet or Equivalent Caste Certificate Graduation Marksheet Domicile Certificate Post Graduation Marksheet Others

Please Attach Scan copy of last Marksheet in (.pdf format and size < 200 KB)

Last Exam passed (%)marks*

Eligibility and Reservation criteria will be as per norms of M.P. Higher Education Department, Govt. of M.P. and concern regulatory bodies. Please ensure for Eligibility and other condition from departmental profile at <http://www.rdvun.gov.in> before submission of form.

Photo Signature: [Click to see the Photo Signature Template.](#)



Declaration

I hereby agree to abide by the decision of the University in all matters of my admission. I further declare that the information given in this form are correct and no criminal case/offence is pending against me. I will follow all the admission rules / regulation & produce all original documents relating to date of birth, eligibility, weightage, caste certificate etc at the time of counselling.

4jp1UA

Type the text



Submit

Student Information System(SIS)				
Registration for SIS	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Pay-Unpaid/View Receipt SIS Registration	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Forgot Password for SIS	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
SIS Student Login	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY



RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA

Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGA VATI

Select



Kiosk



G2G



Student



Enter Password

RnVqbt



Login

[Forgot Password ?](#)



RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGAVATI

VISHWAVIDYALAYA



Select



Enter User Id

Enter Password

9ttHYy

Type the text



Login

[Forgot Password ?](#)



rdvv.mponline.gov.in/P



15



HOME

LOGIN: KIOSK | G2G



RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA

STUDENT REGISTRATION(ONLY FOR RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA STUDENT)

Enroll No: *

DOB(DD/MM/YYYY): *

RSCrYx

Type the text



Show

Forgot Password


Cancel


UTD Admission Form

Admission Form For UTD

rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/Entrance/UTD/Admission_Entrance_Form.aspx

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

 **RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA**
Jabalpur, Madhya Pradesh

 **MPonline Limited**
संयुक्त संस्थान का पोर्टल

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA

UTD Admission Form 2023-24

Fields Marked with(*) are mandatory

Dept. Details

School of Studies/ Department* -- Select --

Course Details

Application For* -- Select -- Subject* -- Select --

Candidate's Personal Details [As per 10+2 Marksheet]

First Name* Last Name*

Full Name in Hindi* ?आज रिटी में दाखल करने हेतु अंग्रेजी में शब्द दाखल करी बिना प्रवेश नहीं दयाई

DOB (dd/mm/yyyy)* Gender* -SELECT-

Father's Name* Mother's Name*

Marital Status* -SELECT- Husband's Name

Category* -SELECT-

FreedomFighter


12:07 PM
09/13/2023


Private Enrolment form

RDW University Admission Form

rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/affiliate/Private/Admission_Form_Private_NEP.aspx

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

 **RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA**
Jabalpur, Madhya Pradesh

 **MPonline Limited**
संयुक्त संस्थान का पोर्टल

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA

Enrollment/Registration Form for PRIVATE 2022-23

College And Course Details

District* -Please Select-

Course Type* -Please Se

College Name*

Program Name* जिन छात्रों ने BBA/BCA की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे छात्रों को MCOM की परीक्षा में पात्रता नहीं है। Course Group/Branch Name*

Exam Type* PRIVATE Medium* -Please Select-

Personal Details

First Name* Last Name*

12:08 PM
09/13/2023

Various Fee collection Form

The screenshot shows a web browser window with the URL rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/VariousFee/frmvariousfees.aspx. The page header includes the RDVV University logo and name, and the MPOonline Limited logo. The main heading is "Application for Various Fees Submission". Below this is a form titled "छात्र/छात्र का विवरण (Student's Details)". The form contains several input fields: नामांकन संख्या (Enrollment No), अनुक्रमांक नंबर (Roll No), छात्र/छात्र का नाम (Student's Name), पिता/पति का नाम (Father's/Husband's Name), माता का नाम (Mother's Name), जन्मतिथि (Date of Birth) with a format of DD/MM/YYYY, लिंग (Gender) with a dropdown menu, मोबाइल नंबर (Mobile No), and पता (Address) with a note to include Pin Code. The browser's taskbar at the bottom shows the time as 12:08 PM on 09/13/2023.

Application for Degree/Diploma

The screenshot shows a web browser window with the URL rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/Counterbase/MPDD/app_provisionalform.aspx?app=DEG. The page header includes the RDVV University logo and name, and the MPOonline Limited logo. The main heading is "Application for Degree/Diploma" with the sub-heading "उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र". Below this is a section for "PERSONAL INFORMATION" with the following text: सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं (*), आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें। महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कट महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिये। The form contains several input fields: छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार (*), छात्र का नाम (Hindi) (*), पिता/पति का नाम (Father/Husband Name) (*), पिता/पति का नाम (Hindi) (*), माता का नाम (Mother Name) (*), and माता का नाम (Hindi) (*). The browser's taskbar at the bottom shows the time as 12:09 PM on 09/13/2023.


Application for Duplicate Marksheet


RDVV University x Admission Form x CounterBase Application x CounterBase Application x CounterBase Application x +

rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/Counterbase/MPDD/app_provisionalform.aspx?app=DUPMARK

mp Clear browsing data Paper Count ba 1st year suppl. d... Login Other bookmarks

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

 **RANI DURGA VATI VISHWAVIDYALAYA**
Jabalpur, Madhya Pradesh

 **MPonline Limited**
भारत सरकार द्वारा स्थापित
मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल

RANI DURGA VATI VISHWAVIDYALAYA

Application for Duplicate Marksheet

अल्पलिपि अंकसूची प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं (*)
आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें।
महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

PERSONAL INFORMATION

छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार *	<input type="text"/>	? कृपया छात्र का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।	छात्र का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>	? छात्र का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।
पिता/पति का नाम(Father/Husband Name) *	<input type="text"/>	? कृपया पिता/पति का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।	पिता/पति का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>	? पिता/पति का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।
माता का नाम (Mother Name)*	<input type="text"/>	? कृपया माता का नाम लिखें।	माता का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>	? माता का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।

TAPTI 12:15 PM 09/13/2023


Application for Migration Certificate


RDVV University x Admission Form x CounterBase Appli x CounterBase Appli x CounterBase Appli x CounterBase Appli x CounterBase Appli x +

rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/Counterbase/MPDD/app_provisionalform.aspx?app=mig

mp Clear browsing data Paper Count ba 1st year suppl. d... Login Other bookmarks

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

 **RANI DURGA VATI VISHWAVIDYALAYA**
Jabalpur, Madhya Pradesh

 **MPonline Limited**
भारत सरकार द्वारा स्थापित
मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल

RANI DURGA VATI VISHWAVIDYALAYA

Application for Migration Certificate

प्रवर्जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं (*)
आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें।
महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

PERSONAL INFORMATION

छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार *	<input type="text"/>	? कृपया छात्र का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।	छात्र का नाम (Hindi) *	<input type="text"/>	? छात्र का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।
पिता/पति का नाम(Father/Husband Name) *	<input type="text"/>	? कृपया पिता/पति का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें।	पिता/पति का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>	? पिता/पति का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।
माता का नाम (Mother Name)*	<input type="text"/>	? कृपया माता का नाम लिखें।	माता का नाम(Hindi) *	<input type="text"/>	? माता का नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंगरेजी में शब्द टाइप करें।

TAPTI 12:15 PM 09/13/2023

Application for Provisional Certificate

The screenshot shows a web browser window with the URL rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/Counterbase/MPDD/app_provisionalform.aspx?app=PRODEG. The page header includes the RDVV University logo and name, and the MPonline Limited logo. The main content area is titled "Application for Provisional Certificate" and contains the following text:

सभी फील्ड अनिवार्य हैं (*)
आवेदक का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखा जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
चिकित्सा संकाय (Medical Faculty) के छात्र Division में केवल PASS का चयन करें।
महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में ना होने की दशा में OTHER विकल्प का चयन कर महाविद्यालय अथवा पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

Below the text is a form with the following fields:

- PERSONAL INFORMATION
- छात्र का नाम (English)मार्कशीट के अनुसार * (with a dropdown for "कृपया छात्र")
- छात्र का नाम (Hindi) * (with a dropdown for "छात्र का नाम")
- पिता/पति का नाम(Father/Husband Name) * (with a dropdown for "कृपया पिता/पति")
- पिता/पति का नाम(Hindi) * (with a dropdown for "पिता/पति")
- माता का नाम (Mother Name) * (with a dropdown for "कृपया माता")
- माता का नाम(Hindi) * (with a dropdown for "माता का नाम")

The browser's taskbar at the bottom shows the time as 12:16 PM on 09/13/2023.

Student registration(only for Rani Durgavati Vishwavidyalaya student)

The screenshot shows a web browser window with the URL rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/STUDENT_MGMT_SYS/Create_login.aspx?NewLogin=kowPjJagZTA=. The page header includes the RDVV University logo and name, and the MPonline Limited logo. The main content area is titled "STUDENT REGISTRATION(OONLY FOR RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA STUDENT)" and contains the following form:

Enroll No: * [input field] DOB(DD/MM/YYYY): * [input field]

Below the form is a CAPTCHA section with the text "msttCA" and a "Type the text" input field with a refresh button.

At the bottom of the form are three buttons: "Show", "Forgot Password", and "Cancel".

The browser's taskbar at the bottom shows the time as 12:18 PM on 09/13/2023.

Metric-6.2.3

Examination(Option 4)

Download Admit Card

rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/Exam/ADMIT_CARD_OLDSEM.aspx

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

MPonline Limited
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and IIS

Download Admit Card

Admit Card
Selection Criteria

Fields are mandatory(*)

* Enroll No

* Select Session

* Select Semester

* Select Status

Search Reset

12:19 PM
09/13/2023

Examination Form

rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/exam/ATKT/FrmNew/regular/ExamForm.aspx

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA
Jabalpur, Madhya Pradesh

MPonline Limited
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and IIS

Examination Form

Selection Criteria

Fields are mandatory(*)

* Enter Enroll Number:

* Select Session

* Select Semester

* Select Status

pgVFC4

Type the text

12:19 PM
09/13/2023

Examination form for Private

The screenshot shows the RDVV online portal for Private Examination form for JUN-2023. The page header includes the RDVV logo, the name of the institution (RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA, Jabalpur, Madhya Pradesh), and the MPonline Limited logo. The main content area is titled "Examination form for Private JUN-2023" and contains a "Selection Criteria" section. This section includes a form with the following fields: "Please Enter Temp Enroll Number/Application No. : *", "Select Year*", and "Select Status*". A red note indicates that fields are mandatory. Below the form, there is a red notice in Hindi regarding the PG Final (Private) exam, stating that candidates must enter their previous year's marks and that the exam will be held in the next year. The page also features a "yEweZC" watermark and a "TAPIT" logo in the bottom right corner.

Registration Form for Offline Students (Regular /Private)

The screenshot shows the RDVV online portal for Offline Students Registration Form. The page header includes the RDVV logo, the name of the institution (RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA, Jabalpur, Madhya Pradesh), and the MPonline Limited logo. The main content area is titled "Registration Form for Offline Students (Regular /Private)". Below the header, there is a "Search Admission Details" section. This section includes a form with the following fields: "Enter RollNo. : *", "Enter Mothers First Name : *", and "Select Semester : *". A red note indicates that fields are mandatory. Below the form, there is a "Note: For Old Candidate Enter your Roll No. and Mother's Name according to your last Year Marksheet." and a "Search Details" button. The page also features a "yEweZC" watermark and a "TAPIT" logo in the bottom right corner.

Examination Form for Regular/Supply/ATKT/Ex Student.

The screenshot shows the RDVV online portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME' and 'LOGIN: KIOSK | G2G'. The main header features the RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA logo and name, along with the MPonline Limited logo. Below the header, a banner displays 'RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA'. The central content area is titled 'Examination Form' and contains a 'Selection Criteria' section. This section includes a form with the following fields:

- * Enter Enroll Number: [Text Input]
- * Select Session: [Dropdown Menu: --Select--]
- * Select Semester: [Dropdown Menu]
- * Select Status: [Dropdown Menu: --Select--]

 A CAPTCHA verification box is present with the text '6fVUKG' and a 'Type the text' input field. A red note indicates 'Fields are mandatory(*)'. The browser's taskbar at the bottom shows the time as 12:32 PM on 09/13/2023.

UTD ATKT Exam Form


The screenshot displays the 'Available Services' section of the RDVV online portal. It features a table with the following columns: SERVICES NAME, START DATE, END DATE, DOWNLOAD, and ACTION. The table lists various services available for users, including enrollment forms, fee collection, and examination forms. The 'ACTION' column contains 'APPLY' buttons for each service. The browser's taskbar at the bottom shows the time as 4:32 PM on 1/12/2023.

SERVICES NAME	START DATE	END DATE	DOWNLOAD	ACTION
Enrollment Form (Regular) MAY-2022				
Pay-Unpaid/View Receipt /Enroll Status	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Enrollment /Registration Form (UTD UG/PG)	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Various Fee Collection				
Apply for Various Fee Collection	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Pay-Unpaid Various Fee Collection	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
For UTD Examination				
Apply for ATKT/Supplementary Exam(CBCS Only)	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Pay-Unpaid Receipt ATKT/Supplementary Exam(CBCS Only)	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Examination Form UG/PG(CBCS Only)	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Pay-Unpaid/ View Receipt Exam Form(CBCS Only)	As per Notif.	As per Notif.	-	APPLY
Counter Base Application				

APPLICATION FORM FOR ENR... x +

rdvv.mponline.gov.in/Portal/Services/RDVV/exam/newexamforms/Admission/regular/frmShowPaidUnpaidAdmissionForm.aspx

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

 **RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA**
Jabalpur, Madhya Pradesh

MPonline Limited
मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA

Application Search

Application No:

Date of Birth: (DATE FORMAT: DD/MM/YYYY)

c21dtD

Type the text


Search

Windows Taskbar: Type here to search, 27°C Sunny, ENG 4:34 PM IN 1/12/2023

Login x +


rdvv.mponline.gov.in/Portal/login.aspx

HOME LOGIN: KIOSK | G2G

 **RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA**
Jabalpur, Madhya Pradesh

MPonline Limited
मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA



Student

Enter User Id

Enter Password

K8MEPd

Type the text

Login

Forgot Password ?

Windows Taskbar: Type here to search, 27°C Sunny, ENG 4:33 PM IN 1/12/2023